

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का कम उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर [संसदीय स्थायी समिति \(PSC\)](#) ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें [ऑपरेशन ग्रीन्स \(OG\) योजना](#) के निम्न प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया।

- इस योजना की सीमिति सफलता, अस्थिर कृषि बाजारों और फसल-पश्चात होने वाले नुकसान की चुनौतियों से निपटने में सरकार की क्षमता के बारे में चर्चाएँ उत्पन्न करती हैं।

PSC रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **बजट का कम उपयोग:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये आवंटित 173.40 करोड़ रुपए में से केवल 34% (59.44 करोड़ रुपए) अक्टूबर 2024 तक खर्च किये गए हैं।
 - आवंटित बजट का 65.73% हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हो पाया है, जिससे शेष वित्तीय वर्ष के लिये व्यय संबंधी दिशानिर्देशों को पूरा करने में चर्चा उत्पन्न होती है।
- **मूल्य स्थिरीकरण पर सीमिति प्रभाव:** फसल की कीमतों को स्थिर करने के योजना के उद्देश्य के बावजूद, महाराष्ट्र में प्याज़ किसानों को मूल्य में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, तथा प्याज़ की कीमतों में लगभग 50% की कमी आई है।
 - ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में आलू की कमी देखी जा रही है, तथा पश्चिम बंगाल में मौसम की खराब स्थिति के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण स्थिति और भी चर्चाजनक है।
- **नीतित असांगतताएँ: नरियात प्रतिबंध और उसके वसितार** तथा नरियात शुल्क अधिरोपण जैसी सरकार की असांगत नीतियों ने प्याज़ किसानों को नरिाश कर दिया है, जिससे उचित मूल्य प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियाँ:** इस योजना के अंतरगत इसके दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करने में संघर्ष करना पड़ा है। इसके दोहरे उद्देश्यों के अंतरगत उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्य का विकल्प प्रदान करते हुए किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना शामिल है।
 - अपर्याप्त वसितपोषण और प्रगत का अभाव कृषि बाजारों को स्थिर करने और [कटाई-उपरांत प्रबंधन](#) में बुनियादी ढाँचे की कमी की पूर्ति करने में चुनौतियों को उजागर करता है।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना क्या है?

- **परिचय:** यह [प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना](#) के तहत वर्ष 2018 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका उद्देश्य "ऑपरेशन फलड (श्वेत क्रांति)" से प्रेरित होकर **विकारीय फसलों** की कीमतों को स्थिर करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- **उद्देश्य:**
 - **दीर्घावधि हस्तक्षेप:** उत्पादन क्लस्टरों और [कृषक उत्पादक संगठनों \(FPO\)](#) को सहायता प्रदान कर किसानों की मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना।
 - फार्म-गेट अवसंरचना, कृषि-लॉजिस्टिक्स और भंडारण सुविधाओं के माध्यम से [कटाई के बाद होने वाले नुकसान](#) को कम करना।
 - उत्पादन क्लस्टरों को बाजार से जोड़कर [खाद्य प्रसंस्करण](#) और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
 - **अल्पकालिक हस्तक्षेप:** आपात/मजबूरन विक्रय से उत्पादकों की रक्षा करना तथा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।
 - **कार्यान्वयन:** OG का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका वसितपोषण [भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वसिणन संघ \(NAFED\)](#) द्वारा किया जाता है।
 - **क्षेत्र का वसितार:** ओ.जी. योजना के अंतरगत प्रारंभ में **टमाटर, प्याज़ और आलू (टी.ओ.पी.)** की फसल शामिल थी।
 - हालाँकि, [15 वें वित्तीय आयोग चक्र \(2021-26\)](#) के भाग के रूप में, इसमें वसितार कर **22 विकारीय (जनिका नाश शीघ्रतः होता है) फसलों को शामिल कर दिया गया**, जैसे **फल** (आम, केला, अंगूर), **सब्जियाँ** (गाजर, बीन्स, भंडी), **लौकी कुल** (लौकी, करेला) और अन्य फसलें जैसे **लहसुन, अदरक और झींगा**।

और पढ़ें: [खाद्य मुद्रास्फीति: प्रवृत्ति, कारक एवं नयितरण उपाय](#)

